

लोकार्पण | मुख्य अतिथि सांसद राव उदय प्रताप सिंह नहीं आए, विस अध्यक्ष डॉ. ने किया उद्घाटन

चार करोड़ के आईटीआई भवन और दो करोड़ रुपए के छात्रावास का लोकार्पण

भास्कर संवाददाता | होशंगाबाद

होशंगाबाद में 4 करोड़ के आईटीआई भवन और 2 करोड़ के छात्रावास भवन का गुरुवार को लोकार्पण हुआ। मुख्य अतिथि सांसद राव उदय प्रताप सिंह के नहीं आने पर विस अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा ने लोकार्पण किया। चलो आईटीआई समारोह में डॉ. शर्मा ने कहा वर्तमान सरकार को बेरोजगारी आतंकवाद और कम विकसित अधोसंरचना विरासत में मिली थी। प्रधानमंत्री ने इसे अवसर में बदल दिया है। देश भर में कौशल उन्नयन का अभियान चलाया जा रहा है। आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा अच्छी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। सफल व्यवसाय चला रहे हैं। आईटीआई को संभाग की सर्वश्रेष्ठ आईटीआई बनाएंगे। इसमें प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। आईटीआई की आईएमसी चेयरमैन सीरूमल



आईटीआई में भवन लोकार्पण अवसर पर स्कूली बच्चों से फार्म भरवाए।

नवलानी ने विधानसभा अध्यक्ष से दोनों भवनों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिये वाटर कूलर देने की मांग की। समारोह में जिपें अध्यक्ष कुशल पटेल, जनपद अध्यक्ष संगीता सोलंकी, हरिशंकर जायसवाल, एडीएम मनोज सरयाम, आईटीआई के प्राचार्य सुनील बडिए मौजूद रहे। संचालन प्रशिक्षण अधिकारी संतोष व्यास ने किया। नवीन आईटीआई भवन का लोकार्पण राजनीति की नूरा कुशती बनता नजर आया। इसके लोकार्पण कार्ड

में नपाध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल का नाम लिखा था पर लोकार्पण के शिलालेख से नपाध्यक्ष का नाम नदारद रहा। शिलालेख में भाजपा जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल का नाम था, जबकि उनका नाम कार्ड में नहीं था। इसके चलते नपाध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी आम नागरिकों की तरह पीछे बैठे रहे। एडीएम मनोज सरयाम ने कहा सामान्य प्रशासन के निर्देश है। सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करना चाहिए।

विद्यार्थी नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने वाला बने: सीएम

प्रदेश में 4 चरणों में आईटीआई अभियान चलाया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी एक साथ शुभारंभ सीएम तथा केंद्रीय तकनीकी शिक्षा मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने किया। युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, स्वरोजगार योजना तथा आर्थिक कल्याण योजना से सहायता दी जाएगी।

- **प्रथम चरण:** 26 मई तक औष्णिकालीन शिविर
- **दूसरा चरण:** उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का 30 मई को होगा सम्मान।
- **तीसरा चरण:** 1 से 15 जून तक ड्रॉपआउट विद्यार्थी करेंगे आईटीआई का ध्रमण
- **चौथा चरण:** आईटीआई के शिक्षक स्कूलों में जाकर अभियान की जानकारी देंगे।